



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 106]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1976/फाल्गुन 30, 1897

No. 106,

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1976/PHALGUNA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March 1976

G.S.R. 245(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and rule 4 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Shrimati Anna R. Malhotra, Joint Secretary to the Government of India, Department of Agriculture as a director on the Board of Directors of the Food Corporation of India established under the said Act, vice Shri M. K. Mukherjee, resigned, for a period upto the 23rd July, 1976 and makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely:—

In the said notification, for item (9) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely:—

“(9) Shrimati Anna R. Malhotra, Joint Secretary to the Government of India, Department of Agriculture, New Delhi.”

[No. F. 4-1/73-FC-I-Vol. II]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

सां०का०नि० 245 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के साथ पठित उपधारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती अम्ना आर० मल्होत्रा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग को श्री एम० के० मुखर्जी के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, 23 जुलाई, 1976 तक की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के निदेशक-बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है, और भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सां०का०नि० 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (9) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(9) श्रीमती अम्ना आर० मल्होत्रा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग, नई दिल्ली ।”

[सं० फा० 4-1/73-एफ० सी०-I-खण्ड II]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव ।